



सराहनीय कार्य जनपद फिरोजाबाद दिनांक 07-08-2022

थाना लाइनपार / सर्विलांस व एसओजी पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट में
वांछित व 10000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त अखिलेश यादव को किया गया
गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में वांछित व इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में थाना लाइनपार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/22 धारा 363,376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में 10,000/- के इनामिया एवं वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हेतु महोदय द्वारा एसओजी, सर्विलांस सहित 03 टीमों का गठन किया गया था ।

गठित टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे इनामिया / वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र जय सिंह सम्बन्धित मुकदमा उपरोक्त को दिनांक 07/08/2022 को रेलवे स्टेशन के पीछे रामनगर रोड से गिरफ्तार किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि थाना लाइनपार पर दिनांक 26/02/2022 को मु0अ0सं0 33/2020 धारा 363 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था । दौराने विवेचना अभियुक्त अखिलेश यादव उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया । जिस पर कार्यवाही करते हुये वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किये गये लेकिन वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी ।

वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव उपरोक्त की गिरफ्तारी न होने और ना ही माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 13/04/2022 को 10000/- रू0 का इनाम घोषित किया गया था ।

इनामिया/वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-

1. अखिलेश यादव पुत्र जय सिंह निवासी रसूलपुर थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात उम्र करीव 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 33/2022 धारा 363/376/ आईपीसी व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना लाइनपार ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस-टीम-

- 1-निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार प्रभारी जोन क्राइम ब्रान्च ।
- 2-निरीक्षक श्री रवि त्यागी प्रभारी क्राइम ब्रान्च जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-प्र0नि0 श्री शिव कुमार चौहान थाना लाइनपार फिरोजाबाद ।
- 4-निरीक्षक श्री वीरेन्द्रपाल सिंह थाना लाइनपार फिरोजाबाद ।
- 5- उ0नि0 श्री नितिन कुमार सर्विसलांस सैल फिरोजाबाद
- 6-है0का0 282 टीपू सिंह जोन क्राइम ब्रान्च टीम ।
- 7- है0का0 प्रशान्त चौहान, 8- है0का0 अमित चौहान 9- है0का0 करनवीर सिंह 10-है0का0 रामअवतार 11- है0का0 रमाकान्त 12- है0का0 सुशील कुमार 13- का0 रघुराज सिंह 14- का0 अनिल कुमार 15-का0 1440 रामवीर सिंह थाना लाइनपार फिरोजाबाद ।
- 16-का0 820 राहुल चौधरी 17-का0 1118 रिन्कू कुमार थाना लानपार जनपद फिरोजाबाद ।